

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन ट्रांज़िट 21 मार्च और 23 मार्च से प्रभावी बसों के निशुल्क किराए, पिछले दरवाजे से चढ़ने और आधी सीटों पर ही सवारियां लेने जैसे बदलाव करेगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 मार्च, 2020) – आज, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) ने घोषणा की कि शनिवार, 21 मार्च से शुरू करते हुए, किराए का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) की प्रतिक्रिया में अगले नोटिस तक, सवारियां केवल पिछले दरवाजों से ही बसों में चढ़ पाएंगी। जिन विकलांग सवारियों को रैम्प का उपयोग करना हो, वे अगले दरवाजों से चढ़ सकती हैं।

सोमवार, 23 मार्च से शुरू करते हुए और अगले नोटिस तक, निम्नलिखित बदलाव भी प्रभावी रहेंगे:

- सोमवार से शुक्रवार तक शनिवार वाली बढ़ी हुई सेवा। इस बारे में विवरण [यहां \(here\)](#) देखे जा सकते हैं।
- शनिवार और रविवार वाली सेवा अपने नियमित समय पर जारी रहेगी।
- ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के, 185 क्लार्क बुलेवार्ड (185 Clark Boulevard) और 130 सैंडलवुड पार्कवे वेस्ट (130 Sandalwood Parkway West) पर स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जनता के लिए बंद रहेंगे। इस समय किराए का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट द्वारा जारी किए जाने वाले सीनियर आई.डी. (Senior ID) कार्डों, वेटर्न्स (Veterans) कार्डों और PRESTO कार्डों की बिक्री स्थगित कर दी गई है। खोए और पाए सामान संबंधी पूछताछ के लिए, सवारियां 905.874.2750 एक्सटेंशन 62732 पर फोन कर सकती हैं।

समुदाय में COVID-19 के संचारण को कम करने के लिए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट 23 मार्च के बाद यह भी लागू करेगी:

- सामाजिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ली जाएंगी। इसका अर्थ है कि जब बसों की आधी सीटें भर जाएंगी, तो बस स्टॉप से आगे चली जाएगी। इससे कुछ सवारियां बस में चढ़ने से वंचित रह सकती हैं। शेष सवारियों को लेने के लिए और बसें लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- अधिक व्यस्त रूट्स पर, आर्टिकुलेटिड (अलग-अलग हिस्सों वाली) बसों का उपयोग किया जाएगा ताकि यात्रियों में सामाजिक दूरी को कायम रखने के लिए सहायता की जा सके। इसका अर्थ है कि नियमित रूट्स पर, ज़ूम (Züm) आर्टिकुलेटिड बसें देखी जा सकती हैं। कृपया बसों पर दिए मंज़िल संबंधी संकेतों पर पूरा ध्यान दें।
- बस में कर्मचारियों सहित, हर किसी के बीच में उपयुक्त दूरी को सुनिश्चित करने के लिए, सीटों को पीली टेप से ब्लॉक किया जाएगा। सवारियों को इन सीटों पर न बैठने का अनुरोध किया जाता है।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के टर्मिनल और इसका संपर्क केंद्र, संचालन के नियमित घंटे कायम रखेंगे। संचालन के घंटों में किसी भी बदलाव के बारे में [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर सूचित किया जाएगा।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने की समय सारणी पहले की तरह ही प्रभावी रहेगी। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जाएगा और रोगाणु मुक्त किया जाएगा। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र, वाइप्स जैसे अपने खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मेजर्स ऑफिस (Brampton Emergency Measures Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें।

### हवाले

“इस खास समय के दौरान हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ब्रैम्पटन स्वस्थ और सुरक्षित शहर है। इसलिए हम बसों का निशुल्क किराया, पिछले दरवाजे से चढ़ने और आधी सीटों पर ही सवारियां लेने जैसे बदलाव कर रहे हैं। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट एक महत्वपूर्ण सेवा है, जो आवश्यक जरूरतों तक पहुंच के लिए निवासियों की मदद करती है। हम इस सुलभता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने स्टैकहोल्डर्स के साथ मिलकर, हम COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए सुरक्षित ट्रांज़िट अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने ट्रांज़िट ऑपरेटर्स की लगातार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हमारी सेवाओं को कायम रखने के लिए, आज की घोषणा सुनिश्चित करती है कि इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हम सुरक्षा पर लगातार पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)